

प्रेस नोट

जनपद सुलतानपुर

दिनांक-18.12.2020

थाना करौदीकलां व स्वाट/संर्विलांस टीम द्वारा लूट की घटना में वांछित चल रहे 25000 रुपये के इनामियां अभियुक्त को गिरफ्तार कर अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी कादीपुर के निकल पर्यवेक्षण में शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा घटनाओं के अनावरण के सम्बंध में चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक-11.11.2020 जूनियर हाई स्कूल कटघर पूरे चौहान गांव के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा सोनाटा फाइनेस कम्पनी के एरिया मैनेजर से लूट की घटना को अजांम दिया गया था। थाना करौदीकलां पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी कादीपुर के क नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। प्रभारी निरीक्षक करौदीकलां मय हमराह अभियुक्तों की पतारासी सुरागरसी हेतु थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि लूट की घटना से सम्बंधित अभियुक्त हरीपुर लालता प्रसाद पब्लिक स्कूल पास कही भागने की फिराक में खडा है। इस सूचना पर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंचे तो 01 व्यक्ति पुलिस टीम को देख कर भागने लगा व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा घेर कर पकडा लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम मोनू अंसारी उर्फ रासिद पुत्र अफताब अंसारी निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर बताया। पकडे गये अभियुक्त से कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब मैं अपनी साथियों के साथ मिलकर दिनांक- 11/11/2020 को गायत्री नगर दसगर पारा तथा सोनाटा फाइनेस कम्पनी के एरिया मैनेजर लूट की घटना के अन्जाम दिया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नामपता अभियुक्त- मोनू अंसारी उर्फ रासिद पुत्र अफताब अंसारी निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर

बरामदगी

1- 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2-लूट के 3500 रुपये

अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0-185/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट

2- मु0अ0सं0-163/20 धारा 394/411 भा0द0वि0

3-मु0अ0सं0-164/20 धारा 392/411 भा0द0वि0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक चन्द्रशेखर थाना करौदीकलां जनपद सुलतानपुर
- 2- व0उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव थाना करौदीकलां जनपद सुलतानपुर

- 3- का0 अनुराग सिंह संविलांस टीम जनपद सुलतानपुर
- 4- का0 समरजीत सरोज स्वाट टीम जनपद सुलतानपुर
- 5- का0 पवन थाना करौदीकलां जनपद सुलतानपुर
- 6- का0घनश्याम थाना करौदीकलां जनपद सुलतानपुर
- 7- का0सोनू गुप्ता थाना करौदीकलां जनपद सुलतानपुर